



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ०६ पटना, बुधवार, २१ माघ, १९३१ (श०)
१० फरवरी, २०१० (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।
भाग-१-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०पी०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-९—विज्ञापन
भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-९-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-४—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

वित्त विभाग

अधिसूचना

1 फरवरी 2010

सं० को०प्र०/स्था०-4/2008/1051/वि०(2)—श्री प्रेम पुष्प कुमार, बिहार लेखा सेवा, लेखा पदाधिकारी, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० को०प्र०/स्था०-4/2008/1051A/वि०(2)—श्री नन्द किशोर सिंह, बिहार लेखा सेवा, सहायक आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक उप-कोषागार पदाधिकारी, निर्मली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह, सचिव (व्यय)।

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

27 जनवरी 2010

सं० भवन/स्था.1-पद.-42/06-599(भ)—श्री सुधांशु शेखर राय, नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, जिनकी सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14040(एस), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है, को अगले आदेश तक उप-निदेशक-2, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन कोषांग, भवन निर्माण विभाग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

(ii) श्री राय को अपने कार्यों के अतिरिक्त तकनीकी सलाहकार, दक्षिण बिहार भवन अंचल, पटना के कार्य सम्पादन हेतु प्रधिकृत किया जाता है।

सं० भवन/स्था.1-पद.-42/06-600(भ)—श्री संत कुमार, नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, जिनकी सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14041(एस), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है, को अगले आदेश तक निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन के तकनीकी सलाहकार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० भवन/स्था.1-पद.-42/06-601(भ)—श्री रघुवीर प्रसाद, नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, जिनकी सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14042(एस), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है, को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० भवन/स्था.1-पद.-42/06-602(भ)—श्री विद्यानन्द झा, नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, जिनकी सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14043(एस), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है, को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० भवन/स्था.1-पद.-42/06-603(भ)—श्री सुरेन्द्र प्रसाद, नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, जिनकी सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14044(एस), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है, को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, निरूपण अंचल संख्या 2, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० भवन/स्था.1-पद.-42/06-604(भ)—श्री राजेन्द्र सरदार, नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, जिनकी सेवा पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14045(एस), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है, को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० भवन/स्था.1-पद.-42/06-605(भ)—श्री कश्यप कुमार गुप्ता, तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
हृदय नारायण झा, विशेष सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
2 फरवरी 2010

सं०6-वि०पत्रा०-24-46/2005-467(अनु०)—विभागीय अधिसूचना संख्या 3167, दिनांक 11 अगस्त 2009 को दिनांक 1 फरवरी 2010 के प्रभाव से विलोपित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-19 के प्रावधानों के अधीन वाणिज्य-कर विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों से संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना को अपीलीय पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

कार्यालय का नाम

- (1) वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय)
- (2) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल
- (3) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
- (4) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
- (5) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
- (6) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
- (7) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
- (8) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
- (9) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
- (10) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
- (11) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
- (12) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल, छपरा
- (13) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
- (14) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गया
- (15) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), मगध प्रमंडल, गया

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० शमीम, अवर सचिव।

2 फरवरी 2010

सं० 6/गो० 34-12/2007-478(अनु०)/वा० क०—श्री हरि प्रसाद साह, वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, शाहाबाद अंचल, आरा के दिनांक 31 जनवरी 2010 को सेवा—निवृत्ति के फलस्वरूप शाहाबाद अंचल, आरा में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी श्री ध्रुवनारायण साहु, वाणिज्य—कर पदाधिकारी को अंचल प्रभारी के पद पर नियमित पदस्थापना होने तक के लिए वाणिज्य—कर पदाधिकारी, प्रभारी, शाहाबाद अंचल, आरा के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मो० शमीम, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+20-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

13 जनवरी 2010

सं० 4 (न०) विधि-9/2007-282/न०वि०एवंआ०वि०—बिहार नगरपालिका प्रकटीकरण अधिनियम, 2008 की धारा-1 (2) एवं (3) के प्रावधान के अन्तर्गत निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं:-

1. बिहार नगरपालिका प्रकटीकरण अधिनियम, 2008 का विस्तार राज्य के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों तक होगा।

2. बिहार नगरपालिका प्रकटीकरण अधिनियम, 2008 तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 47—571+200-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सं० 2/ई 1-2068/06 श्र०स०-2070

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

28 जुलाई 2009

विषय :- श्री दीनानाथ राम, अनुसेवक, श्रम संसाधन विभाग के नाम को परिवर्तित करते हुए उनका नाम श्री दीनानाथ रखने की अनुमति।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 111/आर० आई० 108/65 ए-10026, दिनांक 22 अगस्त 1964 एवं पत्रांक 4714, दिनांक 5 मई 1983 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री दीनानाथ राम, अनुसेवक, श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) बिहार, पटना द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है कि उनका नाम श्री दीनानाथ राम से परिवर्तित कर "श्री दीनानाथ" करने की अनुमति दी जाय।

2. श्री दीनानाथ राम द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के उक्त परिपत्रों के अनुसार नाम परिवर्तित करने हेतु सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गयी है।

3. अतः श्री दीनानाथ राम के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार-राज्यपाल उनके नाम को परिवर्तित करने में निम्न रूप से आदेश देते हैं :-

4. श्री दीनानाथ राम को तत्कालिक प्रभाव से श्री दीनानाथ के नाम से सम्बोधित किया जाय।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं सम्बन्धितों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नन्दजी राम, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>